



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

मूल्यांकन में उत्कृष्टता

(उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India)

प्रेस विज्ञप्ति
(31 दिसम्बर 2019)

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन.टी.ए.) द्वारा यूजीसी- नेट दिसम्बर 2019 के परिणाम की घोषणा

यूजीसी- नेट दिसम्बर 2019 की परीक्षा दिनांक 2 दिसम्बर से दिनांक 06 दिसम्बर के बीच प्रतिदिन दो पालियों में भारत के 219 शहरों में 700 केन्द्रों पर, 81 विषयों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की गई थी।

प्रमुख बिंदु :

पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या	1034872
उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या	793813
केवल सहायक प्रोफेसर की पान्ना के लिए अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की संख्या	60147
कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति और सहायक प्रोफेसर की पान्ना के लिए अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की संख्या	5092

- इस बार भी, परीक्षार्थियों के बोझ को कम करने के लिए परीक्षा का आयोजन केवल 'कंप्यूटर आधारित परीक्षा' (सीबीटी) मोड में किया गया था।
- परीक्षा दिनांक 2 दिसम्बर से दिनांक 06 दिसम्बर 2019 के बीच 10 पालियों में पांच दिनों के लिए आयोजित की गई थी, और परिणाम 31 दिसम्बर 2019 को घोषित किये गए हैं।
- परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए, परीक्षार्थियों द्वारा सत्यापन के लिए प्रश्न पत्र और उनके द्वारा दर्ज की गई प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित किया गया था।
- परिणाम की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, चुनौतियां, यदि कोई हों तो, को आमंत्रित करने के लिए सभी प्रश्न पत्रों की उत्तरकुंजियों को पहले से प्रदर्शित किया गया था। दिनांक 31.12.2019 की फाइनल उत्तर कुंजी के आधार पर ही परिणाम की घोषणा की गई, जो एनटीए नेट वेबसाइट: <https://ugcnet.nta.nic.in> पर अपलोड है।
- इस राष्ट्रव्यापी परीक्षा के लिए, 1450 से अधिक सीसीटीवी के माध्यम से लाइव सीसीटीवी द्वारा निगरानी की गई।
- सभी केन्द्रों पर जैमर्स का उपयोग करके मोबाइल नेटवर्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करने से रोका गया। 3100 से अधिक जैमर प्रत्येक पाली में लगाए गए।
- 19 क्षेत्रीय समन्वयक, 200 सिटी समन्वयक और 600 पर्यवेक्षक यूजीसी- नेट दिसम्बर 2019 की परीक्षा के लिए तैनात किए गए थे।
- यूजीसी की नीति के अनुसार, वे उम्मीदवार जो दोनों पेपरों में उपस्थित हुए हैं और दोनों पेपरों के कुल अंकों में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किये हैं, उनमें से 6% को नेट योग्य घोषित किया गया है।
- अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों को ई- प्रमाण पत्र शीघ्र ही एनटीए द्वारा जारी किया जाएगा।

वरिष्ठ निदेशक, एनटीए